उम्मीदवार का नाम: Ry Armstrong (रे आर्मस्ट्रांग) (वे/वो)

अभियान का नाम: आर्मस्ट्रांग सभी के लिए

अभियान की वेबसाइट: armstrongforall.com

शहर का पद: Seattle महापौर

अभियान का टेलीफोन नंबर: +1 206-657-6287

Seattle के हृदय में, मैं अपने परिवार के पदचिन्हों पर चलते हुए, एक श्रमिक संगठनकर्ता के रूप में खड़ा हूँ। मैं कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता। मैंने श्रमिकों के अधिकारों, किफायती आवास और कला के लिए वर्षों संघर्ष किया है। पर्यावरण-हितैषी Seattle के सह-कार्यकारी निदेशक के रूप में, मैं एक स्वच्छ, निष्पक्ष शहर के लिए काम करता हूँ, जो हममें से सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करता है। पाँच सालों से, मैंने श्रमिक संघों को संगठित किया है और अब AEA के AFL-CIO के राष्ट्रीय परिषद में सेवा देता हूँ, जहाँ मैं 50,000 रचनात्मक कर्मियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जहाँ उन्हें उचित भुगतान, सुरक्षा और लाभ दिलाने के लिए आवाज उठाता हूँ। Seattle LGBTQ आयोग में बिताए गए मेरे समय और समर्थन ने मुझे सिखाया कि शहर की सरकार के कामकाज के तरीकों क्या हैं। मेरा मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में किराए कम होने चाहिए या यह पूरी तरह से मुफ्त होना चाहिए, ताकि कामकाजी परिवार आसानी से पूरे शहर में आ जा सकें और उत्सर्जन कम करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिले। मैं अपने पहले 100 दिनों में 1,000 आश्रय बिस्तर लाने की योजना बना रहा हूँ। भूमि उपयोग नियमों में बदलाव से हम बाल-देखरेख केंद्र बना सकेंगे और Seattle को और सशक्त कर पाएँगे। मैं 2025 में भी पीछे नहीं हटूँगा—हमारा शहर बेहतर भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। आइए, लोगों को पहली प्राथमिकता दें। एकजुटता!

यह उम्मीदवार लोकतंत्र वाउचर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

उम्मीदवार का नाम: Bruce Harrell

अभियान का नाम: ब्रूस के लिए सिएटल (Bruce for Seattle)

अभियान वेबसाइट: BruceforSeattle.com

पद: सीएटल के मेयर

अभियान टेलीफोन नंबर: 206-569-8486

मैं आपके मेयर के रूप में सेवा करने के लिए सम्मानित हूँ! हमारे समर्पित शहर के कर्मचारियों के साथ मिलकर, हम एक ऐसा सिएटल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो सभी के लिए सुरक्षित, सस्ता और स्वागत योग्य हो।

मैं अब तक की हमारी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता हूँ:

●सबसे कमजोर लोगों के लिए सहायक आवास सहित सस्ती आवास में रिकॉर्ड निवेश, और कामकाजी लोगों और परिवारों के लिए हजारों घर।

● सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार जिसमें सिएटल पुलिस की स्टाफिंग; जरूरतमंदों के लिए सहानुभूतिपूर्ण, बिना हथियार की प्रतिक्रिया देने वाली CARE टीम का निर्माण; और युवा सुरक्षा और बंदूक हिंसा रोकने में निवेश शामिल हैं।

● भवनों को साफ करने, परिवहन और सुरक्षित फुटपाथों तक पहुंच में सुधार करने, EV चार्जिंग का विस्तार करने और हजारों नए पेड़ लगाने के लिए तत्काल जलवायु कार्रवाई।

● बुनियादी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करें– सड़कों में सुधार, सरल अनुमति प्रक्रिया, और हमारे जीवंत छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन।

आपके वाउचर और वोट के साथ, हम आगे बढ़ते रहेंगे!

● सस्ती आवास का विस्तार करना– स्कूलों के पास परिवार के अनुकूल घरों से लेकर परिवहन-सुलभ अपार्टमेंट और कोंडोमिनियम तक; हमें पहुंच बढ़ानी चाहिए, लागत कम करनी चाहिए, और पीढ़ीगत धन के अवसर पैदा करने चाहिए।

● सुरक्षा पर प्रगति– SPD भर्ती, CARE टीम का विस्तार, हिंसा को कम करना, और फेंटेनाइल और पदार्थ उपयोग का समाधान करना।

● सिएटल के भविष्य को तेज करना - वेस्ट सिएटल से बैलार्ड लाइट रेल, वॉटरफ्रंट का पूरा होना और सिएटल सेंटर का पुनः कल्पना करना, डाउनटाउन को असली एमेरेल्ड सिटी की महानता में वापस लाना।

मैं आपकी निरंतर समर्थन की मांग करता हूँ।

यह उम्मीदवार लोकतंत्र वाउचर कार्यक्रम में भाग ले रहा है।

उम्मीदवार का नाम: जो मल्लाहन

अभियान का नाम: "मल्लाहन फॉर मेयर"

अभियान की वेबसाइट: joemallahanforseattlemayor.com

शहर का पद: सिएटल के मेयर

अभियान का टेलीफ़ोन नंबर: 206.229.8149

मैं मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सिएटल अपने आदर्शों पर खरा उतर सकता है। एक अधिक कुशल नगर सरकार के रूप में, सिएटल राष्ट्र के लिए एक प्रगतिशील मॉडल हो सकता है - और MAGA की अराजकता और क्रूरता के लिए एक प्रतिरोधक शक्ति भी।

शहर के मेयर के रूप में, मैं शहर को हम सभी के लिए काम करने योग्य बनाऊंगा। हमें सार्वजनिक सुरक्षा में व्यापक सुधार करना होगा - वास्तविक पुलिस निगरानी के साथ-साथ सामुदायिक विश्वास का पुनर्निर्माण भी करना होगा। मैं अपने पहले वर्ष में 50 पुलिस गश्तों पर जाऊँगा ताकि मुझे पता रहे कि हमारी सड़कों पर वास्तव में क्या हो रहा है।

मैं नौकरशाही प्रक्रियाओं में कटौती करूंगा, आवास निर्माण में तेजी लाऊंगा, तथा कामकाजी परिवारों की सेवा करने वाली परियोजनाओं में निवेश करूंगा। मैं अपने पहले वर्ष में किफायती घर बनाने, मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन उपचार तक पहुँच बढ़ाने और 5,000 आपातकालीन बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए संघीय कर क्रेडिट का लाभ उठाऊँगा। अगर लोग सड़कों पर रह रहे हैं तो व्यसन का इलाज करना मुश्किल है।

मैं अपने पूरे करियर में बदलाव का हिमायती रहा हूँ—जिसमें फ्रंटलाइन कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करके मध्यम आकार के व्यवसायों को मुनाफ़े में बदला है। टी-मोबाइल में, मैंने ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों की बात सुनी और कम आय वाले लाखों परिवारों को ऋण की सुविधा और कम दरें दीं। एक सामुदायिक आयोजक के रूप में मैंने बड़ी शहरी समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों को एक साथ लाने का काम किया।

हम बेघर होने की समस्या से सहानुभूतिपूर्वक निपट सकते हैं, तथा सिएटल को सुरक्षित और किफायती बना सकते हैं।

यह उम्मीदवार "डेमोक्रेसी वाउचर प्रोग्राम" में भाग ले रहे हैं।

उम्मीदवार का नाम: जो मोलोय

अभियान का नाम: जो मोलोय फॉर मेयर

अभियान की वेबसाइट: joemolloyformayor.com

शहर का पद: सिएटल के मेयर

अभियान का फ़ोन नंबर: 206-590-1126

मेरा नाम जो मोलॉय है — मैं एक आवास और विकलांगता अधिवक्ता, एक दूरदर्शी प्रणाली-विचारक, और टूटी हुई प्रणालियों के अग्रिम मोर्चे पर रहने के अनुभव से आकार लेने वाला एक लीडर हूं।

मैं कोई पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हूं, बल्कि एक लोक सेवक हूं जो तात्कालिकता की गहरी भावना से प्रेरित है। मैं हमारे शहर में व्याप्त बेघर होने के संकट को हल करने तथा अंततः समाप्त करने के लिए मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ।

सिएटल जाना मेरा जानबूझकर उठाया गया कदम था, क्योंकि मेरा मानना था कि यह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां मैं अपने विचार पूरी तरह व्यक्त कर सकता है। मैं जानता हूं कि कई अन्य लोग भी इसी कारण से इस शहर को अपना घर कहते हैं। फिर भी हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रणालियाँ हमारे आदर्शों से मेल नहीं खातीं।

लेकिन ऐसा हो सकता है – अगर हम इच्छुक और प्रतिबद्ध हों।

हमारा अभियान सिर्फ बेघर होने की समस्या का समाधान करने के बारे में नहीं है — यह ऐसे समावेशी और व्यापक सामाजिक सेवाओं वाले शहर का निर्माण करने के बारे में है, जहां बेघर होने की *संभावना* ही समाप्त हो जाए। मेरा मानना है कि हम वह शहर बन सकते हैं जो रास्ता दिखा सकता है। यह अन्य सभी के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है।

यदि हम बेघर होने की समस्या का समाधान करते हैं, तो हम सिर्फ एक संकट का समाधान नहीं करते हैं — हम एक ऐसे भविष्य की नींव रखते हैं जो सुरक्षित, टिकाऊ और संभावनाओं से भरा होता है।

मैं यहीं करने आया हूँ – और इसीलिए मैं आपका समर्थन मांग रहा हूँ।

यह उम्मीदवार डेमोक्रेसी वाउचर प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं।

उम्मीदवार का नाम: केटी विल्सन

कैंपेन का नाम: विल्सन फॉर सिएटल

कैंपेन की वेबसाइट: wilsonforseattle.com

शहर का पद: सिएटल के मेयर

कैंपेन का टेलीफोन नंबर: 607- 301 - 1836

मेरा नाम केटी विल्सन है और मैं सिएटल की अगली मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ रही हूं।

मैंने अपने करियर के पिछले 14 वर्ष कामकाजी परिवारों के लिए प्रमुख जीत हासिल करने के लिए गठबंधन बनाने और उनका नेतृत्व करने में बिताए हैं: उच्च न्यूनतम मजदूरी, मजबूत किरायेदार सुरक्षा, अधिक किफायती आवास, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और उन लोगों पर टैक्स जो भुगतान कर सकते हैं, न कि हम में से बाकी लोगों पर जो पहले से ही बहुत ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि मतभेदों के बावजूद लोगों को एक साथ लाकर महान उपलब्धियां कैसे हासिल की जाती हैं।

वर्तमान मेयर 2008 से सिटी हॉल में राजनीतिज्ञ हैं। उस समय के दौरान, सिएटल में घर खरीदने या किराए पर लेने की लागत दोगुनी से भी अधिक हो गई है और पहले से कहीं अधिक लोग हमारी सड़कों पर बेघर हैं।

यह इस तरह होना जरूरी नहीं है। हम सभी के लिए, हम घर बना सकते हैं। हमारे पास जीवंत, रहने योग्य पड़ोस हो सकते हैं। हम छोटे व्यवसायों को फलने-फूलने का मौका दे सकते हैं। हमारी सड़कें ऐसी हो सकती हैं जो सुरक्षित महसूस हों क्योंकि वे सुरक्षित हैं। हम आप्रवासी समुदायों की रक्षा कर सकते हैं और सभी के लिए मौके पैदा कर सकते हैं। हम यह काम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। लेकिन सिएटल को नए नेतृत्व की जरूरत है।

यह आपका शहर है। मैं आपकी शक्ति और आपकी आवाज़ को सिटी हॉल में लाना चाहती हूं। मेरे साथ जुड़ें और आइए इसे पूरा करें।

यह उम्मीदवार डेमोक्रेसी वाउचर प्रोग्राम में भाग ले रही हैं।

उम्मीदवार का नाम: ऐन डेविसन

अभियान का नाम: नेबर्स फॉर ऐन

अभियान वेबसाइट: https://neighborsforann.com/

शहर के लिए पद: सिटी अटॉर्नी के लिए उम्मीदवार

अभियान टेलीफ़ोन नंबर: (206) 257 - 2206

2022 से सिएटल सिटी अटॉर्नी के रूप में सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा है, और यह मुझे सिएटल में सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की ऊर्जा देता है। चाहे वह हमारी अपराध न्याय प्रणाली में वास्तविक समय की जवाबदेही बहाल करने पर मेरा ध्यान हो या कानूनों और सरकारी कार्यक्षमता में सुधार के लिए विधायकों और नगर परिषद के साथ काम करना हो, मेरा लक्ष्य हमारी प्रणालियों को अधिक कुशल बनाना है ताकि वे जनता की बेहतर सेवा कर सकें।मैंने हमारे शहर के सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए हैं, ताकि नशाखोरी और वेश्यावृत्ति से जुड़े क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया जा सके और उन कमजोर लोगों का शोषण करने वाले आपराधिक संगठनों को बाधित किया जा सके। मैं अभूतपूर्व डेटा पारदर्शिता और सामुदायिक पहुँच के साथ अभियोजक कार्यालयों में एकदम सक्रिय रहती हूँ, ताकि जनता को मेरे काम और मेरे निर्णयों के आधार के बारे में जानकारी मिल सके। सार्वजनिक सुरक्षा के उद्देश्य से, मैंने उन कार निर्माताओं पर अभियोग चलाया है जो अपनी सबसे सस्ती कारों को हमारे बाज़ारों में लाते हैं जिनके चोरी होने का अत्यधिक जोखिम रहता है। बड़ी रासायनिक कंपनी की ओर से देश की सबसे बड़ी एकल शहरी बस्ती, डुवामिश की पर्यावरणीय सफाई के लिए मैं सिएटल में 160 मिलियन डॉलर लेकर आई हूँ। मैं सिएटल और उसके कानूनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और अगर मैं फिर से चुनी गई तो किसी भी तरह से थकूँगी या रुकूँगी नहीं।

यह उम्मीदवार लोकतंत्र वाउचर कार्यक्रम में भाग ले रही है।

उम्मीदवार का नाम: Erika Evans

अभियान का नाम: Erika Evans को चुनें

अभियान की वेबसाइट: www.ElectErikaEvans.com

शहर में पद: सिटी अटॉर्नी

अभियान की वेबसाइट: info@ElectErikaEvans.com

मैं सिएटल सिटी (Seattle City) की आपकी अगली अटॉर्नी बनने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यह शहर बहुत पसंद है - और मुझे पता है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं। मैं नागरिक और आर्थिक अधिकारों के लिए काम करने वालों के घर में पैदा हुई हूँ, और मैंने उन संघर्षों को देखा है जिनका हमारे कई समुदाय सामना करते हैं। मैंने अपना करियर हमारे अधिकारों की रक्षा करने और लोगों को सुरक्षित बनाने वाले कानूनों को आकार देने में बिताया है।

मैं एकमात्र ऐसी उम्मीदवार हूँ जिसने सिएटल सिटी अटॉर्नी के कार्यालय के आपराधिक और नागरिक दोनों प्रभागों में काम किया है। मैं जानती हूँ कि यह कार्यालय कैसे काम करता है - और वास्तविक परिवर्तन कैसे लाया जाता है। एक प्रो टेम म्युनिसिपल कोर्ट जज के रूप में, मैंने देखा कि जवाबदेही कैसी होती है। एक संघीय अभियोजक के रूप में, मैंने उन नियोक्ताओं पर कार्यवाही की जिन्होंने वेतन चुराया, घृणा अपराधों पर मुकदमा चलाया, बंदूक और फेंटेनाइल तस्करों को जवाबदेह ठहराया, और हिंसा के पीड़ितों के लिए खड़ी हुई।

वास्तविक सुरक्षा का मतलब गिरफ़्तारियों से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है करुणा, मज़बूत श्रम और पर्यावरण सुरक्षा, प्रजनन स्वतंत्रता और कारावास के वास्तविक विकल्पों के साथ जवाबदेही। इसलिए मैं पुनर्वास - न कि घूमने वाले दरवाज़ों पर केंद्रित एक नए सामुदायिक न्यायालय का समर्थन करूँगीा।

ऐसे समय में जब ट्रम्प (Trump) प्रशासन द्वारा हमारे अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, हमें एक ऐसे सिटी अटॉर्नी की ज़रूरत है जिसके पास पलट कर लड़ने के लिए अनुभव, हिम्मत और ज्ञान हो - और जो पहले दिन से ही नेतृत्व कर सके। मैं तैयार हूँ।

यह उम्मीदवार डेमोक्रेसी वाउचर प्रोग्राम में भाग ले रहा है।

उम्मीदवार का नाम: रोरी ओ'सुलिवान

अभियान का नाम: रोरी ओ'सुलिवान के मित्र

अभियान की वेबसाइट: www.electrory.com

शहर का पद: शहरी वकील

अभियान का टेलीफोन नंबर: 206-356-9852

Seattle को एक ऐसा शहरी वकील चाहिए जो हमारे शहर को सुरक्षित बनाने को प्राथमिकता दे। हम सभी अपराध-विरोधी हैं, लेकिन सिर्फ अपराध-विरोधी होना ही काफी नहीं है। हम अब भी समाधानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

शहरी वकील के कार्यालय ने सामुदायिक न्यायालय को बंद दिया, निर्वाचित न्यायाधीशों से टकराव किया, नशे में वाहन चलाने के मामलों की सुनवाई का समय बढ़ाकर 85 दिन कर दिया, असंवैधानिक कार्यकारी आदेशों पर चुप्पी साधे रखी और जिस सुरक्षित व संवेदनशील शहर का वादा किया था, उसे बनाने में पूरी तरह नाकाम रहा।

मैंने अपना करियर श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने, सभी के लिए न्याय प्रणाली को सुलभ बनाने और सक्रिय रूप से सहयोग करने में बिताया है। मैं शहरी वकील कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, जिसका ध्यान Seattle की समस्याओं का ठोस समाधान निकालने पर हो।

मैं बेहतर ट्रैकिंग के साथ सामुदायिक न्यायालय को वापस लाऊँगा, ताकि लोगों को अपराध के चक्र से निकलने का मौका मिले, घरेलू हिंसा और नशे में वाहन चलाने के मामलों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करूँगा जिससे दोबारा अपराध होने की प्रतीक्षा न करनी पड़े, श्रमिकों को बुरे बर्ताव से बचाने के लिए कठोर श्रम मानकों को लागू करूँगा और एक सक्षम शहरी वकील का कार्यालय बनाऊँगा - जो सुशासन पर केंद्रित होगा।

समर्थन: बीमा आयुक्त Patty Kuderer, राज्य सभासद Rebecca Saldaña, राज्य प्रतिनिधि Chipalo Street और Sharon Tomiko Santos, पूर्व शहर परिषद-सदस्य Tammy Morales और Mike O'Brien, Seattle डिस्पैचर्स गिल्ड, और अन्य।

यह उम्मीदवार लोकतंत्र वाउचर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

उम्मीदवार का नाम: Nathan Rouse

अभियान का नाम: Vote Rouse

अभियान वेबसाइट: www.voterouse.com

शहर की स्थिति: City Attorney

अभियान टेलीफोन नंबर: 206-593-2203

मैं **Nathan Rouse** हूं, **एक पब्लिक डिफेंडर, कानूनी अधिवक्ता और पिता**, जो सिएटल के **City Attorney** के लिए उम्मीदवार हूं। मैंने अपने पब्लिक डिफेंडर करियर में उन लोगों के लिए आवाज उठाई जो की पस्त हुए सिस्टम द्वारा असफल रहे और मैं निष्पक्षता, जवाबदेही और दूसरे अवसरों के लिए लड़ा हूं।

मैं उम्मीदवार बना हूँ क्योंकि मुझे इस शहर की बहुत परवाह है और मुझे विश्वास है कि हमें एक ऐसी न्याय प्रणाली चाहिए जो काम करे **सभी के लिए—केवल शक्तिशाली के लिए नहीं**। हमें **वास्तविक सार्वजनिक सुरक्षा** समाधान की आवश्यकता है जो गंभीर अपराधों को संबोधित करते हुए हमारे समुदाय में पुनः प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सार्थक पुनर्वास और समर्थन प्रदान करें। हमें **श्रमिकों और किरायेदारों की रक्षा करने, अपराध के पीड़ितों के लिए एक अधिक मजबूत मुआवजा कोष स्थापित करने,** और **सिएटल के प्रगतिशील मूल्यों** के लिए खड़ा होना चाहिए—विशेष रूप से जब वे ट्रम्प प्रशासन द्वारा हमले के अधीन होते हैं। हम अपने रिपब्लिकन शहर अटॉर्नी पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह हमारी मदद कर पाएंगे।

मैं हर दिन प्रत्यक्ष रूप में देखता हूँ कि हमारा वर्तमान न्याय दृष्टिकोण काम नहीं कर रहा है। अधिकतर, हम लोगों को प्रणाली के माध्यम से गुजारते रहते हैं बिना अपराध के मूल कारणों को संबोधित किए या उन्हें बाहर निकलने पर सफल होने के लिए तैयार किए बिना ताकि वे फिर से अपराध न करें। मैं **डेटा-आधारित नीतियों** पर ध्यान केंद्रित करूंगा जो वास्तव में सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करते हुए सार्थक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं।

मैं एक **सुरक्षित, निष्पक्ष सिएटल** बनाने के लिए दौड़ में हूँ—और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे।

यह उम्मीदवार लोकतंत्र वाउचर कार्यक्रम में भाग ले रहा है।

उम्मीदवार का नाम: एडोनिस डक्सवर्थ

कैंपेन का नाम: एडोनिस फ़ॉर सिएटल

कैंपेन की वेबसाइट: AdonisForSeattle.com

शहर की पोज़ीशन: नगर परिषद की पोज़ीशन 2

कैंपेन का टेलीफ़ोन नंबर: 206-495-5597

मेरा पालन-पोषण एक अकेली मां ने बीकन हिल के एक ट्रिपलेक्स घर में किया। मेरे पास पूरे मोहल्ले में दोस्तों के साथ खेलने की बहुत अच्छी यादें हैं। स्कूलों और सेवाओं के निकट किफायती आवास हमारी स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण था।

आज, लोग बंदूक हिंसा, घर नहीं खरीद पाने, बढ़ती कीमतों के कारण अपने घर से बेघर हो जाने तथा बच्चों के लिए अवसरों की कमी के बारे में चिंतित हैं।

पिछले 10 वर्षों से मैने सिएटल शहर में आउटरीच, एंगेजमेंट और नीति पेशेवर के रूप में काम किया है। पूरे शहर में लोगों को एक साथ लाकर काम पूरा करने का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।

मुझे इसलिए चुनाव लड़ना है क्योंकि मुझे मालूम है कि हम अपने समुदाय के लिए बेहतर कर सकते हैं।

आपके वोट से हमें वह परिणाम मिलेगा, जिसके हम हकदार हैं:

- जो लोग साउथ-एंड में रहना चाहते हैं उनके लिए बेहतर आवास विकल्प; जो लोग अपने घरों और पड़ोस में ही रहना चाहते हैं उनके लिए अधिक विकल्प।
- अधिक जवाबदेह पुलिस अधिकारी, CARE टीम के प्रत्युत्तरदाताओं का विस्तार तथा ऐसी कार्रवाईयों में निवेश करना जो बंदूक हिंसा को कम करें तथा बच्चों और छोटे व्यवसायों की रक्षा करें।
- परिवहन शुल्क की सफलता के आधार पर, मुझे रेनियर और MLK पर कारों की गति धीमी करने, परिवहन को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने तथा सभी यूज़र्स को अधिक सुरक्षित, अधिक पूर्वानुमानित और कुशल विकल्प प्रदान करने के लिए काम करना है।

यह उम्मीदवार डेमोक्रेसी वाउचर प्रोग्राम में भाग ले रहा है।

उम्मीदवार का नाम: Eddie Lin

अभियान का नाम: Eddie for Seattle

अभियान वेबसाइट: https://www.linforseattle.com/

शहर की स्थिति: City Council Position 2

अभियान टेलीफोन नंबर: 206-734-7412

हाउसिंग कार्यालय के सहायक शहर अटॉर्नी के रूप में, Eddie वर्षों से सस्ती आवास के हजारों इकाइयों के लिए धन जुटाने में काम कर रहे हैं। वह मानते हैं कि आसमान छूते किरायों को कम करना शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। Eddie उन भेदभावपूर्ण ज़ोनिंग, रेडलाइनिंग और प्रणालीगत निवेश की कमी की विरासत को संबोधित करने के लिए अथक कार्य करेंगे जिसने हमारे शहर को दशकों से, विशेष रूप से साउथ एंड को, बोझिल बना दिया है।

Eddie ताइवान के एक आप्रवासी की संतान हैं और उत्तरी कैरोलिना में बड़े होते हुए उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने छात्रवृत्तियों, वित्तीय सहायता पर निर्भर किया और कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए मदद करने के लिए कई नौकरियों की। वे एक घर में पेंटर, एक स्थानीय चर्च में सफाईकर्मी, और एक बाइक संदेशवाहक भी थे। जैसा कि द स्ट्रेंजर ने कहा: "सेटल की सस्ती आवास संकट Eddie के लिए नया नहीं है, उसने इसे जिया है।"

Eddie ने उम्मीदवारी की है क्योंकि वह सिएटल की सबसे कठिन चुनौतियों को हल करने के लिए तत्परता की कमी से निराश है। चाहे यह सार्वजनिक सुरक्षा हो, सस्ता आवास, बेघर होना, या संघर्षरत सार्वजनिक स्कूल, वह आगे बढ़ने और ठोस प्रगति करने के लिए तैयार है।

Eddie का मानना है कि सिएटल हर किसी के लिए एक स्थान होना चाहिए– और यही कारण है कि वह आवश्यक सेवाओं जिन पर हम निर्भर करते हैं, को वित्तपोषित करने के लिए समृद्ध कंपनियों और अत्यधिक अमीरों पर कर लगाने का समर्थन करते हैं।

यह उम्मीदवार लोकतंत्र वाउचर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

उम्मीदवार का नाम: जेसी ए. जेम्स

अभियान का नाम: सिएटल के लिए जेसी ए. जेम्स

अभियान की वेबसाइट: jesseajames.com

शहर का पद:नगर परिषद पद 8

अभियान का टेलीफ़ोन नंबर: (206) 657-7062

एक युवा संगीतकार/लेखक के रूप में, जो सिएटल में काम करने और किराए पर रहने की कठिनाइयों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, एक परिषद सदस्य के रूप में मेरी मुख्य प्राथमिकता सिएटल को सभी के लिए सुरक्षित और किफायती बनाना होगा।

2022 में, मैंने कर सुधार और प्रजनन अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित मंच पर कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा था। मैं 2024 में नई कैस्केड (Cascade) पार्टी में शामिल हो गया, और उनके मंच पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को जोड़ने के सफल प्रयास के बाद इसके बोर्ड में चुना गया।

मुझे सच में लगता है कि स्थानीय प्रशासन में विचारधारा को व्यवहारिकता और समुदाय की भलाई के सामने पीछे रहना चाहिए। यहीं पर वास्तविक परिवर्तन घटित होता है।

संघीय नीति अव्यवस्थित है, और हमें स्थानीय सरकार में स्थिरता की ज़रूरत है। सिएटल शहर ने पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक सुरक्षा और आवास के क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही शहर को व्यवसाय के लिए आकर्षक भी बनाए रखा है। हम दयालु सामाजिक कार्यक्रम प्रदान करके, साथ ही छोटे व्यवसाय मालिकों को समर्थन देकर सही संतुलन पा सकते हैं।

मैं लाइट रेल के निरंतर विस्तार का समर्थन करता हूँ। मैं चीनी कर को समाप्त करने का समर्थन करता हूँ। ये नीतियाँ काउंसिल में जवाबदेही और संतुलन लाने के मेरे मकसद से मेल खाती हैं और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने आया हूँ!

Krist Novoselic (क्राइस्ट नोवोसेलिक) और अधिक से समर्थन प्राप्त

यह उम्मीदवार डेमोक्रेसी वाउचर कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहा है।

उम्मीदवार का नाम: रेचल सैवेज

अभियान का नाम: फ्रेंड्स ऑफ रेचल सैवेज – नगर परिषद

अभियान की वेबसाइट: http://www.savageforseattle.com

शहर का पद: नगर परिषद पद 8

अभियान का टेलीफ़ोन नंबर: (206) 657-7062

सिएटल शहर में एक व्यवसाय की मालकिन के रूप में मुझे राजनेताओं द्वारा हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को खत्म करने, अपराध, नशे की लत और मानसिक बीमारी को मौत का कारण बनने देने, हमारे व्यवसायों और सुंदर शहर और हर नागरिक की सुरक्षा की भावना को बर्बाद करने के परिणामों के साथ रहना पड़ा है। एक निवासी के रूप में मुझे लगातार बढ़ते किराये से जूझना पड़ता है और मुझे घर खरीदने में भी परेशानी होती है। आपके नगर परिषद सदस्य के रूप में, मेरा मिशन व्यावहारिक नीति पारित करके आपकी सेवा करना होगा, जो मजदूरी बनाम किराये के अंतर को कम करेगा, हमारे पुलिस विभाग का पुनर्निर्माण करेगा, हमारे अपने शहर की जेल को सुरक्षित करेगा, गिरफ्तारी और जेल की सजा की अनुमति देगा और नशीली दवाओं और मानसिक बीमारी की महामारी को हल करने के लिए दीर्घकालिक आवासीय उपचार केंद्रों का निर्माण करेगा।

हम बेहतर कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक की एक ही इच्छा है कि उसके साथ कानून के तहत निष्पक्ष व्यवहार हो तथा वह एक शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध समाज में रहे। सुरक्षा से हमारे शहर में व्यापार और समृद्धि वापस आएगी। हम यह काम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। आपके वोट के साथ, उस यथास्थिति के खिलाफ मैं उस अनसुनी आवाज, सामान्य बुद्धि की आवाज, एकजुट आवाज का प्रतिनिधित्व करूंगी, जिसने हमें लंबे समय से निराश किया है। लोकतंत्र वाउचर बाहरी लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। आज अपने लोकतंत्र वाउचर के साथ मेरे अभियान का समर्थन करें।

यह उम्मीदवार डेमोक्रेसी वाउचर प्रोग्राम में भाग ले रही हैं।

उम्मीदवार का नाम: डायोन फोस्टर

कैंपेन का नाम: डायोन फॉर सिएटल

कैंपेन की वेबसाइट: dionnefoster.com

शहर की पोज़ीशन: सिएटल सिटी काउंसिल की पोज़ीशन #9

कैंपेन का टेलीफ़ोन नंबर: 206-651-5493

हम सुरक्षित सड़कों, किफायती आवास और सिएटल के ऐसे नेताओं के हकदार हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा करें और हमारी बातों का सम्मान करें।

डायोन फोस्टर एक नीति विशेषज्ञ, कम्युनिटी लीडर, प्रशिक्षित सोशल वर्कर और माँ हैं, जिन्होंने हमारे समुदायों को सुरक्षित, अधिक टिकाऊ और अधिक न्यायसंगत बनाने में एक दशक से अधिक समय बिताया है। वह सकारात्मक नेतृत्व के इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए सिटी काउंसिल के लिए चुनाव लड़ रही हैं – जिसमें वह व्यक्तिगत एजेंडों के बजाय साझा प्राथमिकताओं और तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर से काउंसिल का ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

WA प्रोग्रेस अलायंस में कार्यकारी निदेशक के रूप में, उन्होंने राज्यव्यापी कैपिटल गेन टैक्स पर अपनी लीडरशिप के ज़रिए बाल देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा और स्कूल निर्माण में ऐतिहासिक निवेशों को पारित करने और संरक्षित करने में मदद की – जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अमीर लोग अपना उचित योगदान दें और साथ ही वहन करने की क्षमता और फंडिंग संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।

सिएटल शहर में वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में, डायोन ने सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार, युवाओं के लिए अवसर पैदा करने और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हितधारक सहभागिता का प्रबंधन किया। सिएटल फाउंडेशन में, उन्होंने नई आवास रणनीतियां बनाने और आर्थिक जीवन शक्ति को बढ़ावा देने वाले संगठनों में निवेश किया।

आपके सहयोग से, डायोन राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए सिएटल को एकजुट करने तथा स्थानीय प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे हमारे शहर में सभी को सुरक्षित, स्वागत योग्य और समर्थित महसूस करने में मदद मिलेगी। इस दौड़ में डायोन एकमात्र उम्मीदवार हैं जिन्हें MLK लेबर काउंसिल का समर्थन प्राप्त है।

यह उम्मीदवार डेमोक्रेसी वाउचर प्रोग्राम में भाग ले रही हैं।

उम्मीदवार का नाम: सारा नेल्सन

अभियान का नाम: सारा नेल्सन फ़ॉर सिटी काउंसिल

अभियान की वेबसाइट: SaraForCityCouncil.com

पोज़ीशन: सिएटल सिटी काउंसिल की पोज़ीशन 9 एट-लार्ज

अभियान का टेलीफ़ोन नंबर: 206-821-6140

मैं सारा नेल्सन, आपकी नगर परिषद सदस्य हूं।

चार साल पहले, सिएटल की स्थिति खराब थी - बढ़ते अपराध, हमारे पार्कों में अतिक्रमण तथा एक ऐसी परिषद थी जो प्रगति करने की अपेक्षा बयानबाजी में अधिक रुचि रखती थी। मैंने इसे बदलने के लिए चुनाव लड़ा।

आज, हम आखिरकार दिशा बदल रहे हैं। सिएटल, 2019 के बाद पहली बार, जितने पुलिस अधिकारियों की कमी हुई है, उससे अधिक की भर्ती कर रहा है। हम एवरग्रीन ट्रीटमेंट सर्विसेज के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करके फेंटेनाइल महामारी का सीधा सामना कर रहे हैं, जो ओपिओइड के इस्तेमाल के विकार से जूझ रहे लोगों तक सीधे मोबाइल दवा और सहायता पहुंचाता है। और जब पड़ोस के व्यवसायों में चोरियाँ होने लगीं, तो हमने उनकी लागत वसूलने में सहायता के लिए स्टोरफ्रंट रिपेयर फ़ंड की स्थापना की।

हर किसी को रिकवर होने के लिए उसी तरह की सुविधा मिलनी चाहिए जैसी मुझे मिली थी। इसीलिए मैंने पूरे शहर में आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करते हुए, मुफ़्त और मांग पर आधारित उपचार उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया है।

मैं परिणाम देने में विश्वास रखती हूं, अंतहीन बहस में नहीं। चाहे वह छोटे व्यवसायों को फलने-फूलने में मदद करना हो या समुदाय-आधारित संस्थाओं को समर्थन देना हो जो हमारे शहर को इतना जीवंत बनाते हैं।

हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वे जटिल हैं, लेकिन हम मिलकर वास्तविक प्रगति कर सकते हैं। इस कार्य को जारी रखने के लिए आपका समर्थन पाकर मैं गौरवान्वित महसूस करूंगी।

यह उम्मीदवार डेमोक्रेसी वाउचर प्रोग्राम में भाग नहीं ले रही है।